

दावा प्रक्रिया के लिए व्यापक दिशानिर्देश

- कृपया सुनिश्चित करें कि दावे का फार्म पूरा भरा गया है, हस्ताक्षर करके **मूल प्रति जमा** की गई है।
- कृपया अपने दावे के संबंध में आगे पत्रव्यवहार के लिए कम से कम उपलब्ध कराएं। दो चालू मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी
- दावा दस्तावेजों की संकेतात्मक सूची दावा फार्म में खंड-ड में दी गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रति जमा की गई है, ताकि दावे पर आसानी से कार्यवाही की जा सके।
- मूल प्रतियां नहीं होने पर दावा संबंधी कार्यवाही में देर लगेगी।
- दावा भुगतान केवल ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के जरिए किया जाता है। कृपया बैंक खाता विवरण और एक निरस्त चैक जमा करें। बैंक खाते का ब्योरा दावा फार्म के खंड-'छ' में दिया जाना है।

उपरोक्त के अलावा, यदि दावा राशि 1 लाख रुपए से अधिक है, तब निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत होगी:

- पालिसीधारक के पहचान प्रमाण की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि। (स्वीकार्य दस्तावेज – पासपोर्ट / पैन कार्ड / वोटर आईडी कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड / वर्तमान पते सहित वर्तमान पासबुक / वर्तमान पते सहित बैंक खाता स्टेटमेंट)
- पालिसीधारक के निवास प्रमाण की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि। (स्वीकार्य दस्तावेज – बिजली का बिल / राशन कार्ड / लीज एग्रीमेंट / टेलिफोन बिल / वर्तमान पते सहित वर्तमान पासबुक / वर्तमान पता सहित बैंक खाता स्टेटमेंट)
- पैलिसीधारक के दो पासपोर्ट आकार के फोटो

दावा दस्तावेज नीचे लिखे पते पर भेजे जाने हैं:-

केयर हेल्थ इंश्योरेंस – दावा विभाग

यूनिट नं. 604–607, 6वां तल, टावर सी, यूनिटेक साइबर पार्क,
सेक्टर 39, गुरुग्राम–122001 (हरियाणा)

अब, अपनी दावा स्थिति का एसएमएस द्वारा पता करें

ऑनलाइन: कृपया नीचे दिए लिंक पर जाकर अपनी क्लाइंट आईडी और पालिसी नंबर दर्ज करें

www.careinsurance.com/claim_search.php सेंटर/क्लेम सर्व/क्लाइंट आईडी और पालिसी नंबर दर्ज करें

एसएमएस: बस अपनी दावा संदर्भ संख्या को संदेश फॉर्मेट **CLAIM <space> CLAIM NUMBER** में लिखकर 77158 77158 पर एसएमएस करें

उदाहरण: दावा संदर्भ संख्या 11223344 की दावा स्थिति पता करने के लिए, बस 77158 77158 पर CLAIM 11223344 एमएमएस करें।

दावा फार्म के साथ अपेक्षित प्रमुख दस्तावेजों का संक्षिप्त वर्णन

- इनडोर केस पेपर्स – यह दस्तावेज अस्पताल द्वारा दैनिक आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें रोजाना डाक्टर के नोट, नर्सों के नोट, मरीज की हालत का ब्योरा और मरीज के दाखिल किए जाने से छुट्टी तक मरीज की हालत का ब्योरा दर्ज किया जाता है।
- अस्पताल से छुट्टी की सारांश – अस्पताल में दाखिल होने का सारांश जिसमें दाखिल होने की तारीख, छुट्टी की तारीख, निदान, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उपचार का ब्योरा तथा अस्पताल से छुट्टी के बाद के लिए सलाह शामिल होती है।
- भुगतान की रसीदें – अस्पताल के सभी बिलों, जांच रिपोर्टों और किसी अन्य प्रक्रिया के लिए अस्पताल के अधिकारियों को किए गए भुगतान की रसीदें।
- परामर्श कागजात – परामर्शदाता डाक्टर द्वारा दी गई लिखित पर्ची।
- एनईएफटी (नेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ट्रांसफर) – हमें पालिसीधारक का निरस्त चैक और दावा फार्म के खंड-छ में अनिवार्य रूप से भरा जाने वाला संबद्ध ब्योरा चाहिए।

आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा भुगतान के लिए नियम और शर्तें

- पालिसीधारक द्वारा अनिवार्य फार्म में दिया गया ब्योरा अंतिम माना जाएगा तथा केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) उसमें दिए गए ब्योरे की मिलान जांच के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
- पालिसीधारक सहमति प्रदान करता है कि आरटीजीएस / एनईएफटी सुविधा पर आरटीजीएस / एनईएफटी शुल्क लग सकता है, जो पालिसीधारक के बैंक द्वारा वसूल किया जाएगा तथा पालिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा।
- दस्तावेजों या बैंक विवरण या अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत किए जाने का किसी भी तरह, शक्ति या रूप में यह अभिप्राय, अभिव्यक्ति अथवा संकेत नहीं है कि कंपनी ने देयता स्वीकार कर ली है।
- मैं / हम आगे वचन देता हूं / देती हूं / देते हैं कि कोई भी अतिरिक्त राशि, चाहे केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा मांगी गई है अथवा नहीं, जो किसी भी कारण से तथा किसी भी समय मेरे खाते में जमा की गई है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से ऐसे क्रेडिट की ऐसी सूचना प्राप्त होने अथवा किसी अन्य स्रोत से पालिसीधारक को ऐसे क्रेडिट की जानकारी मिलने के 7 दिन के भीतर वापस कर दूंगा / दूंगी / देंगे।
- पालिसीधारक सहमति प्रदान करता है कि आरटीजीएस / एनईएफटी सुविधा के तहत, आरटीजीएस / एनईएफटी सुविधा संबंधी लागू विनियमों में परिवर्तन के कारण अथवा किसी भी अन्य कारण से, जिसमें केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की ओर से कोई चूक / निष्क्रियता / असफलता नहीं है अथवा केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से भुगतान के क्रेडिट के दिन पालिसीधारक की खाता संख्या में भुगतान नहीं होने की कोई जोखिम नहीं होगी।

nlOk QleZ & Hksj B Hks d

1. बीमित द्वारा भरा जाना है।
2. यह फार्म जारी करने का अर्थ दावा स्वीकार करना कदापि नहीं है।
3. स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए।

दावा सूचना सं _____

[k] d & ew chek k j d dk C lsk

क) पालिसी सं :	<input type="text"/>					
ख) एसएल सं./प्रमाणपत्र सं.:	<input type="text"/>		ग) कंपनी/टीपीए आईडी सं.:	<input type="text"/>		
घ) नाम: :	<input type="text"/>		(उपनाम)	(प्रथम नाम)	(मध्य नाम)	
ङ) पता: :	<input type="text"/>					
	<input type="text"/>					शहर: <input type="text"/>
राज्य :	<input type="text"/>					पिन कोड: <input type="text"/>
लैंडलाइन :	<input type="text"/> - <input type="text"/>		मोबाइल: <input type="text"/>			
ई—मेल :	<input type="text"/>					

[k] M k & chek bfr gk dk C lsk

क) वर्तमान में किसी अन्य मेडिक्लेम/हेल्थ बीमा द्वारा कवर्ड : <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
ख) अंतराल रहित पहला बीमा प्रारंभ होने की तिथि : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (दिन—माह—वर्ष)	
ग) यदि हां, कंपनी का नाम : <input type="text"/>	
पालिसी नंबर : <input type="text"/>	बीमित रकम (रु.) : <input type="text"/>
घ) क्या अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि से पिछले 4 वर्ष के भीतर कभी अस्पताल में भर्ती रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
• तारीख: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (दिन—माह—वर्ष)	
• निदान: _____	
ङ) पहले किसी अन्य मेडिक्लेम/हेल्थ बीमा द्वारा कवर्ड: <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
च) यदि हां, कंपनी का नाम: <input type="text"/>	

[k] Mx & chfr QfDr dk C lsk

शीर्षक : <input type="checkbox"/> श्री <input type="checkbox"/> कु.	
क) नाम : <input type="text"/>	
(उपनाम) <input type="text"/> (प्रथम नाम) <input type="text"/> (मध्य नाम) <input type="text"/>	
ख) लिंग : <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> महिला ग) आयु: <input type="text"/> / <input type="text"/> (वर्ष—माह) डी) जन्म तिथि: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
ड) मूल बीमाधारक से संबंध: <input type="checkbox"/> स्वयं <input type="checkbox"/> साथी <input type="checkbox"/> बच्चा <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> माता	
<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें) _____	
च) व्यवसाय : <input type="checkbox"/> सर्विस <input type="checkbox"/> स्व.रोजगार <input type="checkbox"/> गृहिणी <input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> विद्यार्थी <input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें) _____	
छ) पता : (यदि उपरोक्त से अलग है) <input type="text"/> शहर: <input type="text"/>	
राज्य : <input type="text"/>	पिन कोड: <input type="text"/>
ज) लैंडलाइन : <input type="text"/> - <input type="text"/>	मोबाइल: <input type="text"/>
झ) ई—मेल : <input type="text"/>	

केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

रजिस्टर्ड कायालय: पौंछवी मंजिल, 19-चावला हाउस, नैहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110019 पत्राचार कार्यालय: यूनिट नं. 604-607, 6वां तल, टावर सी, यूनिटेक साइबर पार्क, सेक्टर 39, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)

वेबसाइट: www.careinsurance.com ई—मेल: customerfirst@careinsurance.com हमें कॉल करें: 1800-102-4488

CIN: U66000DL2007PLC161503 UIN: RHIHLIP20091V041920 आईआरडीए पंजीकरण संख्या - 148

खंड घ – अस्पताल में भर्ती रहने का व्योरा

- क) अस्पताल का नाम जहाँ भर्ती किया गया : / / / / / /
- ख) लिए गए कमरे का संवर्ग : दिन के समय देखभाल एक के लिए कमरा दो के लिए कमरा हर कमरे में 3 या ज्यादा बेड
- ग) अस्पताल में भर्ती का कारण : चोट बीमारी प्रसव
- घ) चोट/बीमारी पहली बार पता लगने/प्रसव की तिथि : / / (दिन–माह–वर्ष)
- ङ) भर्ती होने की तारीख : / / (दिन–माह–वर्ष)
- झ) यदि चोट लगी है, कारण बताएँ : खुद मारी गई चोट सड़क दुर्घटना
- ि) यदि चिकित्सा कानूनी मामला : हां नहीं
- िि) एमएलसी रिपोर्ट एवं पुलिस एफआईआर संलग्न : हां नहीं
- च) भर्ती होने का समय : : (घंटे:मिनट)
- ज) छुट्टी होने का समय : : (घंटे:मिनट)
- पदार्थ दुरुपयोग/मदिरा पान
- ii) पुलिस में रिपोर्ट : हां नहीं
- ज) चिकित्सा पद्धति : _____

खंड झ – दावे का व्योरा

- क) दावा किए गए उपचार व्यय का व्योरा

(i) अस्पताल में भर्ती से पहले का खर्चा : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>	कुल	: रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>
(ii) अस्पताल में रहने का खर्चा : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>	(ix)	अस्पताल में भर्ती होने से पहले की अवधि : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> दिन
(iii) अस्पताल से छुट्टी के बाद का खर्चा : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>	(x)	अस्पताल में भर्ती होने के बाद की अवधि : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> दिन
(iv) स्वारथ्य जांच लागत : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>		
(v) ऐम्बुलेंस प्रभार : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>		
(viii) अन्य (कोड) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>		

- ख) घर पर इलाज हेतु दावा : हां नहीं
- (यदि हां, व्योरा संलग्न करें)

- ग) दावा किए गए एकमुश्त/नकद लाभ का विवरण:

(i) अस्पताल डैनिक कैश : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>	(v) अस्पताल में भर्ती होने से पहले/बाद में एकमुश्त लाभ : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>
(ii) सर्जिकल कैश : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>	(vi) रोगी देखभाल : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>
(iii) गंभीर बीमारी लाभ : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>	(vii) अन्य <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>
(iv) स्वारथ्यलाभ : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>	कुल : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/>

- घ) प्रस्तुत किए गए दावा दस्तावेज – जांचसूची

(i) दावा फार्म पर सही ढंग से हस्ताक्षर किए गए हैं : <input type="checkbox"/>	(vii) फार्मसी बिल : <input type="checkbox"/>
(ii) दावा सूचना की प्रति, यदि कोई : <input type="checkbox"/>	(viii) आपरेशन थियेटर नोट्स : <input type="checkbox"/>
(iii) अस्पताल का मैन बिल : <input type="checkbox"/>	(ix) ईसीजी : <input type="checkbox"/>
(iv) अस्पताल ब्रेक–अप बिल : <input type="checkbox"/>	(x) डाक्टर का जांच हेतु अनुरोध : <input type="checkbox"/>
(v) अस्पताल बिल भुगतान रसीद : <input type="checkbox"/>	(xi) जांच रिपोर्ट (सीटीआई एमआरआई/यूएसजी/एचपीई सहित) : <input type="checkbox"/>
(vi) अस्पताल से छुट्टी का संक्षिप्त व्योरा : <input type="checkbox"/>	(xii) डाक्टर का नुस्खा : <input type="checkbox"/>
(xvi) अन्य <input type="checkbox"/> _____	

खंड च – संलग्न बिलों का व्योरा

क्रम सं	बिल संख्या	तारीख	जारीकर्ता	हेतु	राशि (आईएनआर)
1		(दिन–माह–वर्ष)		अस्पताल मेन बिल	
2		(दिन–माह–वर्ष)		अस्पताल में भर्ती होने से पहले का बिल :—संख्या	
3		(दिन–माह–वर्ष)		अस्पताल में भर्ती होने के बाद का बिल :—संख्या	
4		(दिन–माह–वर्ष)		दवा बिल	
5		(दिन–माह–वर्ष)			
6		(दिन–माह–वर्ष)			
7		(दिन–माह–वर्ष)			
8		(दिन–माह–वर्ष)			
9		(दिन–माह–वर्ष)			
10		(दिन–माह–वर्ष)			

ज्यादा व्योरा होने की हालत में, कृपया अलग शीट नक्शी करें

खंड छ – मूल बीमित के बैंक खाते का व्योरा

k) पैन	:	<input type="text"/>												
ख) खाता संख्या	:	<input type="text"/>												
ग) बैंक का नाम और शाखा	:	<input type="text"/>												
घ) चैक / डीडी देय व्योरा	:	<input type="text"/>												
ङ) आईएफएससी कोड	:	<input type="text"/>												

खंड ज – बीमित द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूं कि इस दावा फार्म में दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि मैंने इस दावे में पूछे गए सवालों के जवाब में कोई फर्जी या असत्य बयान किया है, कोई महत्वपूर्ण बात छुपाई या दबाई है, मेरा प्रतिपूर्ति दावा अधिकार समाप्त मान्य होगा। मैं यह भी सहमति देता हूँ कि टीपीए / कंपनी को उस व्यक्ति, जिसके संबंध में यह दावा किया गया है, के इलाज करने वाले अस्पताल / डाक्टर से जरूरी चिकित्सा जानकारी प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने इस दावे के प्रयोजन हेतु सभी बिल / रसीदें शामिल की हैं तथा मैं प्री / पोस्ट-हॉस्पीटलाइजेशन के अलावा कोई अनुपूरक दावा पेश नहीं करूँगा।

तारीख : / / (दिन–माह–वर्ष)

बीमित के हस्ताक्षर : _____

सीन : _____

दावा फार्म – भाग क भरने के लिए दिशानिर्देश (बीमित द्वारा भरा जाना है)

डेटा तत्व	वर्णन	फार्मेट
खंड क – मूल बीमित का व्योरा		
क) पालिसी नं.	पालिसी नंबर प्रविष्ट करें	जैसाकि बीमा कंपनी द्वारा आवंटित किया गया है
ख) क्र.सं. / प्रमाणपत्र सं.	सामाजिक बीमा नंबर या सामाजिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम की प्रमाणपत्र संख्या प्रविष्ट करें	जैसाकि आर्गनाइजेशन द्वारा आवंटित किया गया है
ग) कंपनी टीपीए आईडी सं.	टीपीए आईडी नंबर प्रविष्ट करें	लाइसेन्स नंबर जैसाकि आईआरडीए द्वारा आवंटित किया गया है और टीपीए दस्तावेजों में मुद्रित किया गया है
घ) नाम	पालिसीधारक का पूरा नाम प्रविष्ट करें	उपनाम, प्रथम नाम, मध्य नाम
ङ) पता	पत्रव्यवहार का पूरा पता प्रविष्ट करें	गली, शहर तथा पिन कोड शामिल करें
खंड ख – बीमा इतिहास का व्योरा		
क) वर्तमान में किसी अन्य मेडिक्लेम/स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर्ड	बताएं कि क्या वर्तमान में किसी अन्य मेडिक्लेम/स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर्ड	हां या नहीं पर टिक करें
ख) बिना ब्रेक पहला बीमा प्रारंभ होने की तारीख	पहले बीमा के शुरू होने की तारीख दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ग) कंपनी का नाम	बीमा कंपनी का पूरा नाम दर्ज करें	आर्गनाइजेशन का पूरा नाम
पालिसी नंबर	पालिस नंबर दर्ज करें	जैसाकि बीमा कंपनी द्वारा आवंटित किया गया है
बीमित रकम	पालिसी के अनुसार कुल बीमित रकम दर्ज करें	रूपये
घ) क्या यह करार शुरू होने से पिछले चार वर्ष में आप कभी अस्पताल में भर्ती रहे हैं?	बताएं कि क्या पिछले चार वर्ष में कभी अस्पताल में भर्ती हुए?	हां या नहीं पर टिक करें
तारीख	अस्पताल में भर्ती होने की तारीख	माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
निदान	निदान का व्योरा दर्ज करें	खुला पाठ
ङ) पहले किसी अन्य मेडिक्लेम/स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर्ड	बताएं कि क्या पहले किसी अन्य मेडिक्लेम/स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर्ड	हां या नहीं पर टिक करें
च) कंपनी का नाम	बीमा कंपनी का पूरा नाम दर्ज करें	आर्गनाइजेशन का पूरा नाम
खंड ग – अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्ति का व्योरा		
क) नाम	रोगी का पूरा नाम दर्ज करें	उपनाम, प्रथम नाम, मध्य नाम
ख) लिंग	रोगी का लिंग दर्ज करें	पुरुष या महिला टिक करें
ग) आयु	रोगी की आयु दर्ज करें	वर्ष और माह की संख्या
घ) जन्म तिथि	रोगी की जन्मतिथि दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ङ) मूल बीमाधारक से संबंध	रोगी का पालिसीधारक के साथ संबंध	सही विकल्प पर टिक करें। यदि अन्य, स्पष्ट करें
च) व्यवसाय	रोगी का व्यवसाय दर्ज करें	सही विकल्प पर टिक करें। यदि अन्य, स्पष्ट करें
छ) पता	पूरा डाक पता दर्ज करें	गली, शहर तथा पिन कोड शामिल करें
ज) लैंडलाइन	रोगी का फोन नंबर दर्ज करें	फोन नंबर एसटीडी कोड सहित शामिल करें
झ) ई-मेल आईडी	रोगी का ई-मेल पता दर्ज करें	पूरा ई-मेल पता
खंड घ – अस्पताल में रहने का व्योरा		
क) अस्पताल का नाम जहां भर्ती किया गया	अस्पताल का नाम दर्ज करें	अस्पताल का पूरा नाम
ख) भर्ती कर्मरे का संवर्ग	भर्ती कर्मरे का संवर्ग बताएं	सही विकल्प पर टिक करें
ग) भर्ती का कारण	अस्पताल में भर्ती का कारण बताएं	सही विकल्प पर टिक करें
घ) चोट की तारीख/बीमारी पता लगने की तारीख/प्रसव की तारीख	संबद्ध तारीख दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ङ) भर्ती की तारीख	भर्ती की तारीख दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
च) समय	भर्ती का समय दर्ज करें	घंटे–मिनट प्रारूप प्रयोग करें
छ) छुट्टी की तारीख	छुट्टी की तारीख दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ज) समय	छुट्टी का समय दर्ज करें	घंटे–मिनट प्रारूप प्रयोग करें
झ) यदि चोट, कारण बताएं	चोट का कारण बताएं	सही विकल्प पर टिक करें
यदि चिकित्सा कानूनी मामला पुलिस में रिपोर्ट की गई एमएलसी रिपोर्ट एवं पुलिस एफआईआर नथी	बताएं कि क्या चोट चिकित्सा कानून है क्या पुलिस में रिपोर्ट की गई क्या एमएलसी रिपोर्ट एवं पुलिस एफआईआर नथी की गई रोगी के इलाज में अपनाई गई चिकित्सा पद्धति दर्ज करें	हां या नहीं पर टिक करें हां या नहीं पर टिक करें हां या नहीं पर टिक करें
ज) चिकित्सा पद्धति	बताएं कि कौन से समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं	खुला पाठ
खंड झ – दावे का व्योरा		
दावे का हेतु	वह घटना चुनें जिसके लिए दावा किया गया है	हां या नहीं पर टिक करें
क) उपचार व्यय का व्योरा	उपचार व्यय के रूप में दावा की गई राशि दर्ज करें	रूपयों में (ऐसे दर्ज नहीं करें)
ख) घर पर इलाज हेतु दावा	बताएं कि क्या घर पर इलाज के लिए दावा किया गया है	हां या नहीं पर टिक करें
ग) दावा की गई एकमुश्त राशि/कैश लाभ का व्योरा	दावा की गई एकमुश्त राशि/कैश लाभ का व्योरा	रूपयों में (ऐसे दर्ज नहीं करें)
घ) प्रस्तुत किए गए दावा दस्तावेज – जांच सूची	बताएं कि कौन से समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं	सही विकल्प पर टिक करें
खंड झ – संलग्न बिलों का व्योरा		
बताएं कि कौन से बिल प्रस्तुत किए गए हैं, रूपए में राशि सहित		

डेटा त्रय	वर्णन	फार्मेट
खंड ग – मूल बीमित व्यक्ति के बैंक खाते का व्योरा		
क) पैन	स्थायी खाता संख्या दर्ज करें	जैसाकि आयकर विभाग द्वारा आवंटित किया गया है
ख) खाता संख्या	बैंक खाता संख्या दर्ज करें	जैसाकि बैंक द्वारा आवंटित किया गया है
ग) बैंक नाम और शाखा	बैंक का नाम और शाखा सहित दर्ज करें	बैंक का पूरा नाम
घ) चैक / डीडी देय का व्योरा	चैक / डीडी के लाभार्थी का नाम दर्ज करें जिसके नाम बनाया जाना है	व्यक्ति / आर्गनाइजेशन का पूरा नाम
ङ) आईएफएससी कोड	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड दर्ज करें	बैंक शाखा का पूरा आईएफएससी कोड
खंड ज – बीमित द्वारा घोषणा		
घोषणा ध्यान से पढ़ें तथा तारीख (दिन माह वर्ष प्रारूप में), स्थान (खुला पाठ) लिखकर हस्ताक्षर करें		

- अस्पताल द्वारा भरा जाना है।
- यह कार्म जारी करने का अर्थ देयता स्वीकार करना नहीं है।
- कृपया भाग के स्थान पर मूल पूर्व-प्राधिकरण अनुरोध शामिल करें।
- स्पष्ट अक्षरों में भरें।

भाग क – अस्पताल का व्योरा

क) अस्पताल का नाम	:																		
ख) अस्पताल आईडी	:																		
ग) अस्पताल का प्रकार	:	<input type="checkbox"/> नेटवर्क	<input type="checkbox"/> गैर – नेटवर्क (यदि गैर–नेटवर्क खंड ड भरें)																
घ) इलाज करने वाले डाक्टर का नाम	:	(उपनाम)						(प्रथम नाम)						(मध्य नाम)					
ङ) योग्यता	:																		
च) रजिस्ट्रेशन नंबर राज्य के कोड सहित:	:																		
छ) संपर्क नंबर	:																		

खंड ख – भर्ती किए गए रोगी का व्योरा

क) रोगी का नाम	:																		
		(उपनाम)						(प्रथम नाम)						(मध्य नाम)					
ख) आईपी रजिस्ट्रेशन सं.:	:																		
ग) लिंग	:	<input type="checkbox"/> पुरुष	<input type="checkbox"/> महिला	घ) आयु:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(वर्ष–माह)	ङ) जन्म तिथि:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(वर्ष–माह)							
च) भर्ती की तारीख	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(दिन–माह–वर्ष)	छ) भर्ती का समय :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(वर्ष–माह)									
ज) छुट्टी की तारीख	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(दिन–माह–वर्ष)	झ) छुट्टी का समय :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(वर्ष–माह)									
अ) भर्ती का प्रकार	:	<input type="checkbox"/> आपातस्थिति	<input type="checkbox"/> योजना	<input type="checkbox"/> दिन के समय देखभाल	<input type="checkbox"/> प्रसव														
ट) यदि प्रसव																			
(i) प्रसव की तारीख :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(दिन–माह–वर्ष)	(ii) गर्भकाल स्थिति :														
ठ) छुट्टी के समय स्थिति :	<input type="checkbox"/>	घर के लिए छुट्टी	<input type="checkbox"/> दूसरे अस्पताल के लिए छुट्टी	<input type="checkbox"/> मृत्यु															
ड) कुल दावा राशि	:																		

खंड ग – निदान का व्योरा (मूल)

क) (i) मूल निदान	:	आईसीडी 10 कोड:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वर्णन :										
(ii) अतिरिक्त निदान	:	आईसीडी 10 कोड:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वर्णन :										
(iii) सह – विकार	:	आईसीडी 10 कोड:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वर्णन :										
(iv) सह – विकार	:	आईसीडी 10 कोड:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वर्णन :										
ख) (i) प्रक्रिया 1	:	आईसीडी 10 कोड:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वर्णन :										
(ii) प्रक्रिया 2	:	आईसीडी 10 कोड:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वर्णन :										
(iii) प्रक्रिया 3	:	आईसीडी 10 कोड:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वर्णन :										
(iv) प्रक्रिया का विवरण :																

ग) वर्तमान बीमारी पीईडी की जटिलता है: हां नहीं

यदि हां, व्योरा दें : _____

घ) पूर्व-प्राधिकार प्राप्त : हां नहीं

ङ) पूर्व-प्राधिकार संख्या :

च) यदि नेटवर्क अस्पताल द्वारा पूर्व-प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया, कारण बताएँ : _____

छ) चोट के कारण भर्ती : हां नहीं

(i) यदि हां, कारण बताएँ : खुद मारी गई चोट सड़क दुर्घटना पदार्थ दुरुपयोग / मदिरापान

(ii) यदि पदार्थ दुरुपयोग / मदिरापान के कारण चोट लगी है तब निम्न स्थापित करने हेतु की गई जांच : हां नहीं
(यदि हां, रिपोर्ट नथी करें)

(iii) यदि चिकित्सा कानूनी मामला : हां नहीं

(iv) पुलिस में रिपोर्ट की गई : हां नहीं

(v) एफआईआर नंबर : _____

(vi) यदि पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई, कारण बताएँ : _____

खंड घ – प्रस्तुत दावा दस्तावेज – जांच सूची

(i) हस्ताक्षरयुक्त दावा फार्म	: <input type="checkbox"/>	(ix) जांच रिपोर्ट	: <input type="checkbox"/>
(ii) मूल पूर्व-प्राधिकार अनुरोध	: <input type="checkbox"/>	(x) सीटी/एमआरआई/यूएसजी/एचपीई जांच रिपोर्ट	: <input type="checkbox"/>
(iii) पूर्व-प्राधिकार मंजूरी पत्र की प्रति	: <input type="checkbox"/>	(xi) जांच हेतु डाक्टर की संदर्भ पर्याप्त	: <input type="checkbox"/>
(iv) रोगी के फोटो आईकार्ड की प्रति अस्पताल द्वारा सत्यापित	: <input type="checkbox"/>	(xii) ईसीजी	: <input type="checkbox"/>
(v) अस्पताल से छुट्टी का संक्षिप्त व्योरा	: <input type="checkbox"/>	(xiii) फार्मेसी बिल	: <input type="checkbox"/>
(vi) आपरेशन थियेटर नोट्स	: <input type="checkbox"/>	(xiv) एमएलसी रिपोर्ट एवं पुलिस एफआईआर	: <input type="checkbox"/>
(vii) अस्पताल का मेन बिल	: <input type="checkbox"/>	(xv) अस्पताल से मूल मृत्यु सारांश, जहां लागू हो	: <input type="checkbox"/>
(viii) अस्पताल बिल व्योरा	: <input type="checkbox"/>	(xvi) कोई अन्य, कृपया स्पष्ट करें _____	: <input type="checkbox"/>

खंड छ – गैर-नेटवर्क अस्पताल के मामले में अतिरिक्त विवरण (केवल गैर-नेटवर्क अस्पताल के मामले में भरा जाना है)

क) अस्पताल का पता

शहर	:	_____
राज्य	:	_____
ख) संपर्क नंबर	:	_____ - _____
ग) रजि. नंबर राज्य के कोड सहित	:	_____
घ) अस्पताल पैन	:	_____
च) अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं	: (i) ओटी : <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	(ii) आईसीयू : <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(iii) अन्य : _____	(iv) अंतः रोगी बेड्स की संख्या : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

पिन कोड :

खंड च – अस्पताल द्वारा घोषणा

हम एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि इस दावा फार्म में दी गई सूचना हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि हमने कोई फर्जी या असत्य बयान किया है, कोई महत्वपूर्ण बात छुपाई या दबाई है, इस दावे के तहत हमारे दावे का अधिकार समाप्त मान्य होगा।

तारीख : / / (दिन-माह-वर्ष) अस्पताल अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर : _____

सीन : _____

दावा फार्म – भाग ख भरने के लिए दिशानिर्देश (अस्पताल द्वारा भरा जाना है)

डेटा चब	वर्णन	फार्मेट
भाग क – अस्पताल का ब्योरा		
क) अस्पताल का नाम	अस्पताल का नाम दर्ज करें	अस्पताल का पूरा नाम
ख) अस्पताल की आईडी	अस्पताल की आईडी संख्या दर्ज करें	जैसाकि टीपीए द्वारा आबंटित किया गया है
ग) अस्पताल का प्रकार	स्पष्ट करें कि अस्पताल नेटवर्क में है या गैर-नेटवर्क है	सही विकल्प पर टिक करें
घ) इलाज करने वाले डाक्टर का नाम	इलाज करने वाले डाक्टर का नाम	डाक्टर का पूरा नाम
ङ) योग्यता	इलाज करने वाले डाक्टर की योग्यता दर्ज करें	शैक्षिक योग्यता का संक्षिप्त नाम
च) रजिस्ट्रेशन नंबर राज्य के कोड सहित	डाक्टर का रजि. नंबर राज्य के कोड सहित दर्ज करें	जैसाकि चिकित्सा परिषद द्वारा आबंटित किया गया है
छ) संपर्क नंबर	डाक्टर का फोन नंबर दर्ज करें	फोन नंबर एसटीडी कोड सहित शामिल करें
खंड ख – भर्ती किए गए रोगी का विवरण		
क) रोगी का नाम	अस्पताल का नाम दर्ज करें	अस्पताल का पूरा नाम
ख) आईपी रजि. नंबर	बीमा प्रदाता का रजि. नंबर दर्ज करें	जैसाकि बीमा प्रदाता द्वारा आबंटित किया गया है
ग) लिंग	रोगी का लिंग दर्ज करें	पुरुष या महिला टिक करें
घ) आयु	रोगी की आयु दर्ज करें	वर्ष और माह की संख्या
ङ) जन्म तिथि	रोगी की जन्मतिथि दर्ज करें	दिन-माह-वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
च) भर्ती की तारीख	भर्ती की तारीख दर्ज करें	दिन-माह-वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
छ) समय	भर्ती का समय दर्ज करें	घंटे-मिनट प्रारूप प्रयोग करें
झ) छुट्टी की तारीख	छुट्टी की तारीख दर्ज करें	दिन-माह-वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ज) समय	छुट्टी का समय दर्ज करें	घंटे-मिनट प्रारूप प्रयोग करें
ट) भर्ती का प्रकार	रोगी की भर्ती का प्रकार स्पष्ट करें	सही विकल्प पर टिक करें
ठ) यदि प्रसव		
प्रसव की तिथि	प्रसव की स्थिति में प्रसव की तारीख दर्ज करें	दिन-माह-वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
गर्भकाल स्थिति	प्रसव की स्थिति में गर्भकाल की स्थिति दर्ज करें	मानक प्रारूप का उपयोग करें
ङ) छुट्टी के समय स्थिति	छुट्टी के समय रोगी की स्थिति दर्ज करें	सही विकल्प पर टिक करें
छ) कुल दावित राशि	कुल दावित राशि इंगित करें	रूपए में (ऐसे दर्ज नहीं करें)
खंड ग – निदान का ब्योरा (प्राथमिक)		
क) सीडी 10 कोड		
मूल निदान	आईसीडी 10 कोड तथा मूल निदान का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
अतिरिक्त निदान	आईसीडी 10 कोड तथा अतिरिक्त निदान का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
सह-विकार	आईसीडी 10 कोड तथा सह-विकार का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
ख) सीडी 10 पीसीएस		
प्रक्रिया 1	आईसीडी 10 कोड तथा पहली प्रक्रिया का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
प्रक्रिया 2	आईसीडी 10 कोड तथा दूसरी प्रक्रिया का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
प्रक्रिया 3	आईसीडी 10 कोड तथा तीसरी प्रक्रिया का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
प्रक्रिया का विवरण	प्रक्रिया का विवरण दर्ज करें	खुला पाठ
ग) पीईडी	स्पष्ट करें कि क्या वर्तमान रोग पीईडी का संयोजन है	हां या नहीं पर टिक करें
यदि हां, विवरण स्पष्ट करें	पीईडी का ब्योरा दर्ज करें	खुला पाठ
घ) पूर्व-प्राधिकार प्राप्त	बताएं कि क्या पूर्व-प्राधिकार प्राप्त किया गया	हां या नहीं पर टिक करें
ज) पूर्व-प्राधिकार संख्या	पूर्व-प्राधिकार संख्या दर्ज करें	जैसा कि टीपीए द्वारा आबंटित किया गया है
च) यदि नेटवर्क अस्पताल द्वारा पूर्व-प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया, कारण बताएं	पूर्व-प्राधिकार प्राप्त नहीं करने का कारण दर्ज करें	खुला पाठ
छ) चोट के कारण भर्ती	बताएं कि क्या चोट के कारण अस्पताल में भर्ती हुए हैं	हां या नहीं पर टिक करें
कारण	चोट का कारण बताएं	सही विकल्प टिक करें
यदि पदार्थ दुरुपयोग/मदिरापान के कारण चोट लगी है तब निम्न स्थापित करने हेतु की गई जांच	बताएं कि क्या जांच की गई थी	हां या नहीं पर टिक करें
यदि विकित्सा कानूनी मामला	बताएं कि क्या जांच विकित्सा कानूनी है	हां या नहीं पर टिक करें
पुलिस में रिपोर्ट	बताएं कि क्या पुलिस में रिपोर्ट की गई थी	हां या नहीं पर टिक करें
एफआईआर सं.	एफआईआर नंबर दर्ज करें	जैसा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है
यदि पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई, कारण बताएं :	पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने का कारण दर्ज करें	खुला पाठ
खंड घ – प्रस्तुत दावा दस्तावेज – जांच सूची		
स्पष्ट करें कि कौन से समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं		

केयर हेल्प इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले रेलीगेयर हेल्प इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

रेजिस्टर्ड कायालय: पैंचवीं मंजिल, 19-चावला हाउस, नेहरू प्लैस, नई दिल्ली – 110019 पत्ताचार कार्यालय: यूनिट नं. 604-607, 6वां तल, टावर सी, यूनिटेक साइबर पार्क, सेक्टर 39, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)

वेबसाइट: www.careinsurance.com ई-मेल: customerfirst@careinsurance.com हमें कॉल करें: 1800-102-4488

CIN: U66000DL2007PLC161503 UIN: RHIHLIP20091V041920 आईआरडीए पंजीकरण संख्या - 148

डेटा त्रै	वर्णन	फार्मेट
खंड छ – गैर-नेटवर्क अस्पताल के मामले में अतिरिक्त विवरण		
क) पता	पूरा डाक पता दर्ज करें	गली, शहर तथा पिन कोड शामिल करें
ख) संपर्क नं.	अस्पताल का फोन नंबर दर्ज करें	फोन नंबर तथा एसटीडी कोड शामिल करें
ग) राज्य कोड सहित रजिस्ट्रेशन सं	डाक्टर का रजि. नंबर राज्य के कोड सहित दर्ज करें	जैसाकि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा आवंटित किया गया है
घ) अस्पताल पैन	स्थायी खाता क्रमांक दर्ज करें	जैसाकि आयकर विभाग द्वारा आवंटित किया गया है
ङ) अंतर्रोगी बेड्स की संख्या	अंतर्रोगी बेड्स की संख्या दर्ज करें	अंक
च) अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं	अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं दर्ज करें	सही विकल्प पर टिक करें। यदि अन्य हैं, स्पष्ट करें
खंड च – अस्पताल द्वारा घोषणा		
घोषणा ध्यान से पढ़ें तथा तारीख (दिन माह वर्ष प्रारूप में), स्थान (खुला पाठ) लिखकर हस्ताक्षर करें तथा मोहर लगाएं		

vug Xud 1 & nlok QM Zdsfy,

; fn vS y lyI *dsvaxZ fuEufyf k ed sfd h, d yk kdsfy, nlokfd; kt kkg\$rk s-i ; km ; q yk kij fvd dj avksI aksr fooj . kHj s%

oYMBkbMbu&i skd d oj ½ k krd ky dsfy, ½ :

oYMBkbMv kshMhd oj :

uk%धि 'वर्ल्डवाइड ओपीडी कवर' के अंतर्गत दावा किया जाता है, तो केवल संबंधित आवेदन के फील्ड को भरना होगा।

अस्पताल का नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जहां उपचार किया गया था:

उपचार करने वाले डॉक्टर का नाम:

बीमारी / चोट का विवरण:

बीमारी / चोट की वजह:

क्या पूर्व-मौजूद स्थिति के कारण बीमारी / घटना हुई / बढ़ी थी? कृपया विवरण दें:

बीमारी की शुरुआत की तिथि (दिन माह वर्ष):

उपचार की प्रकृति:

उपचार की तिथि (दिन माह वर्ष): से तक

i k i kZ ksk

खोने की तिथि (दिन माह वर्ष): हानि का स्थान:

खोने का विवरण / परिस्थितियां:

कुल व्यय:

p&bu c\$ d k[ksk

सामान्य कैरियर का नाम

खोने की तिथि (दिन माह वर्ष): हानि का स्थान:

अवरोहण के पोट:

क्रम सं.	खोने का विवरण	राशि

er 'kj j d knsk k orz

मृत्यु का कारण:

बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि (दिन माह वर्ष): कुल व्यय:

परिवहन: _____ से: _____ तक तिथि:

eMVi y boM q' kM

यदि मेडिकल इवैक्युएशन की जाती है, तो मेडिकल इवैक्युएशन के लिए कारण:

मेडिकल इवैक्युएशन: _____ से: _____ तक तिथि:

क्रम सं.	व्यय विवरण	राशि

सहमति पत्र

तारीख

सेवा में,
चिकित्सा अधीक्षक

प्रिय श्रीमान,

सं. : मैसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और इसके एजेन्टों के पक्ष में प्राधिकार

मैं आपके अस्पताल में

से _____ तक _____ अंतर्गत उपचाराधीन रहा हूँ

मैं एतद्वारा मैसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) तथा/अथवा इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आपसे अथवा उपरोक्त बीमारी के संबंध में मेरे इलाज से जुड़े डाक्टरों से कोई भी चिकित्सा जानकारी/रिकार्ड मांगने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

उनके द्वारा किसी भी संबंध में ऐसी सूचना/रिकार्ड मांगे जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

धन्यवाद,
भवदीय

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)
बीमित के हस्ताक्षर —